


All India Trade Test 2020 - Computer Based Test

Welcome Mr/Ms. [REDACTED]

Date of Birth: [REDACTED]

[Logout](#)

Print



प्रशिक्षण महानिदेशालय
Directorate General of Training

AITT - CBT Exam - 2020
Student Mark Sheet



Industrial Training Institute



Roll Number : [REDACTED]

Name : [REDACTED]

Date of Birth : [REDACTED]

Father Name : Mr/Ms. JAY [REDACTED]

Duration : Two

Trade : Fitter

Exam Userid : [REDACTED]

Exam ID : [REDACTED]

Year	Subject	Exam Date	Start Time	Total Questions	Attended Questions	Correct Answer
Two	Trade Theory	10-02-2021	14:00	40	40	13
Two	Workshop Calculation & Science	10-02-2021	14:00	20	20	11
Grand Total -				60	60	24

Examination Center Code	Examination Center Name
[REDACTED]	[REDACTED]



सत्यमेव जयते


प्रशिक्षण महानिदेशालय


Directorate General of Training



AITT - CBT Exam



- 2020







Student Answer
Sheet


Sl.No.	Q.ID	Questions & Answers	Status
1	2761	<p>Q) What is the method of surface hardening? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है?</p>  <p>global iti youtube channel</p> <p>a) Nitriding नाइट्राइडिंग b) Case hardening केस हार्डनिंग c) Flame hardening फ्लेम हार्डनिंग d) Induction hardening इंडक्शन हार्डनिंग</p> <p>Right Answer is : C. You have Marked : A. Wrong Answer</p>	⊗
2	2762	<p>Q) Which material is used to clean the slip gauge? स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है?</p> <p>a) Wax मोम b) Kerosene मिट्टी तेल c) Soluble oil घुलनशील तेल d) Carbon tetra chloride कार्बन टेट्राक्लोराइड</p> <p>Right Answer is : D. You have Marked : B. Wrong Answer</p>	⊗
3	2763	<p>Q) Where is circular taper key used? सर्कुलर टेंपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है?</p> <p>a) Light duty transmission लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन b) Bi-directional rotation हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन c) Lengthy shaft कम गति की आवश्यकताएं d) Tapered shaft उच्च गति आवश्यकताओं</p> <p>Right Answer is : A. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	⊗
4	2764	<p>Q) Which nut protects the bolt end thread from damages? कौन सा नट, बोल्ट के सिरे की चूड़िया को नुकसान होने से बचाता है?</p> <p>a) Cap nut कैप नट b) Castle nut कैसटल नट c) Slotted nut स्लाटिड नट d) Knurled nut क्नुर्लेड नट</p> <p>Right Answer is : A. You have Marked : A. Right Answer</p>	⊙


5	2765	<p>Q) What is the name of gauge? इस गेज का नाम क्या है?</p>  <p>a) Thread ring gauge थ्रेड रिंग गेज b) Thread plug gauge थ्रेड प्लग गेज c) Thread pitch gauge थ्रेड पिच गेज d) Taper plug gauge टेंपर प्लग गेज</p> <p>Right Answer is : B. You have Marked : B. Right Answer</p>	✓
6	2766	<p>Q) What is lead of multi start thread? मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है?</p> <p>a) Pitch x No. of starts पिच x स्टार्ट्स की संख्या b) Lead x No. of starts लीड x स्टार्ट्स की संख्या c) Pitch x major diameter पिच x मेजर व्यास d) Pitch x minor diameter पिच x माइनर व्यास</p> <p>Right Answer is : A. You have Marked : B. Wrong Answer</p>	✗
7	2767	<p>Q) Which material is to wash off the lapping plate after charging? किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है?</p> <p>a) Oil तेल b) Kerosene मिटटी तेल c) Coolant oil कूलेंट तेल d) Petroleum jelly पेट्रोलियम जेली</p> <p>Right Answer is : B. You have Marked : D. Wrong Answer</p>	✗
8	2768	<p>Q) Which bearing loading is at right angles to the bearing axis? कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है?</p> <p>a) Thrust bearing थ्रस्ट बियरिंग b) Journal bearing जर्नल बियरिंग c) Solid bearing सॉलिड बियरिंग d) Split bearing स्प्लिट बियरिंग</p> <p>Right Answer is : B. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	✗
9	2769	<p>Q) Which is the abrasive used for lapping soft steel and non-ferrous metals? किस अपघर्षक (एब्रेसिव) का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है?</p> <p>a) Silicon carbide सिलिकन कार्बाइड b) Diamond हीरा c) Boron carbide बोरान कार्बाइड d) Fused alumina फ्यूज़्ड एल्यूमीना</p> <p>Right Answer is : D. You have Marked : D. Right Answer</p>	✓

10	2770	<p>Q) Why the tempering process carried out in steel? स्टील में टेंपरिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है?</p> <hr/> <p>a) To add cutting ability काटने की क्षमता जोड़ने के लिए b) To relive strain and stress स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए c) To refine the grain structure ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए d) To regulate the hardness and toughness कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए</p> <hr/> <p>Right Answer is : D. You have Marked : D. Right Answer</p>	✓
11	2771	<p>Q) Which type of bearing is designed to take axial thrust as well as radial loads? किस प्रकार का बियरिंग, अक्षीय थ्रस्ट के साथ-साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है?</p> <hr/> <p>a) Ball bearing बॉल बियरिंग b) Roller bearing रोलर बीयरिंग c) Taper roller bearing टेपर रोलर बेयरिंग d) Angular contact ball bearing एंगुलर कान्टैक्ट बॉल बियरिंग</p> <hr/> <p>Right Answer is : D. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	✗
12	2772	<p>Q) Which type of bearing metal is self lubricated? किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है?</p> <hr/> <p>a) White metal वाइट मेटल b) Sintered alloy सिन्टेर्ड अलाय c) Aluminium alloy एल्युमिनियम मिश्र धातु d) Cadmium based alloy कैडमियम बेस्ड मिश्र धातु</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	✗
13	2773	<p>Q) Which metal protects corrosion resistant and does not crack or peel off due to temperature variation on coating? कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है?</p> <hr/> <p>a) Zinc जस्ता b) Nickel निकल c) Copper तांबा d) Chromium क्रोमियम</p> <hr/> <p>Right Answer is : A. You have Marked : A. Right Answer</p>	<div style="text-align: center;">  </div> ✓
14	2774	<p>Q) What is the name of washer? इस वॉशर का नाम क्या है?</p> <hr/>  <hr/> <p>a) Internal type washer आंतरिक प्रकार वॉशर b) External type washer बाहरी प्रकार वॉशर c) Internal and external washer आंतरिक और बाहरी वॉशर d) Counter sunk washer काउंटर संक वॉशर</p> <hr/> <p>Right Answer is : C. You have Marked : D. Wrong Answer</p>	✗


15	2775	<p>Q) What is the name of part marked X? X के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है?</p>  <p>a) Ball case बॉल केस b) Inner race इनर रेस c) Outer race आउटर रेस d) Ball separating gauge बॉल सेपरैटिंग गेज</p> <p>Right Answer is : D. You have Marked : B. Wrong Answer</p>	⊗
16	2776	<p>Q) Which bearing material has poor thermal conductivity? किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता(थर्मल कान्डक्टिवटी) कम होती है?</p> <p>a) Nylon नायलॉन b) Teflon टेफ्लोन c) Sintered alloys सिन्टेर्ड अलाय d) Laminated phenolics लैमिनेटेड फेनोलिक्स</p> <p>Right Answer is : D. You have Marked : B. Wrong Answer</p>	⊗
17	2777	<p>Q) What is the name of the plumber tool to assemble or dismantle pipes of 50 mm to 150 mm diameter? 50 मिमी से 150 मिमी व्यास के पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम क्या है?</p> <p>a) Strap wrench स्ट्रैप रिच b) Chain pipe wrench चेन पाइप रिच c) Still son pipe wrench स्टिल सन पाइप रिच d) Foot point pipe wrench फुट प्वाइंट पाइप रिच</p> <p>Right Answer is : B. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	⊗
18	2778	<p>Q) What is the name of part marked as X? X के रूप में चिह्नित भाग का नाम बताए?</p>  <p>a) Cutter wheel कटर व्हील b) Adjusting screw अजस्टिंग स्कू c) Guide rollers गाइड रोलर्स d) Hand lever हैंड लीवर</p> <p>Right Answer is : A. You have Marked : D. Wrong Answer</p>	⊗

19	2779	<p>Q) What is the angle of deviations provided on elbows and bends in pipe works? पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है?</p> <hr/> <p>a) 90° and 45° 90° और 45° b) 30° and 60° 30° और 60° c) 20° and 40° 20° और 40° d) 60° and 45° 60° और 45°</p> <hr/> <p>Right Answer is : A. You have Marked : A. Right Answer</p>	
20	2780	<p>Q) How pipes are classified? पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?</p> <hr/> <p>a) Uses उपयोग b) Colour रंग c) Shapes आकृतियाँ d) Material मटेरियल</p> <hr/> <p>Right Answer is : D. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	
21	2781	<p>Q) What is the name of jig? इस जिग का नाम क्या है?</p> <hr/>  <hr/> <p>a) Post jig पोस्ट जिग b) Solid jig सॉलिड जिग c) Channel jig चैनल जिग d) Trunnion jig ट्रूनियन जिग</p> <hr/> <p>Right Answer is : C. You have Marked : D. Wrong Answer</p>	
22	2782	<p>Q) What is the purpose of setting blocks used in the fixture? फिक्स्चर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है?</p> <hr/> <p>a) Position the balancing weight संतुलन वजन की स्थिति b) Position the clamp and locators क्लैप और लोकेटर की स्थिति c) Position the fixture on machine table मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति d) Position the fixture and work related to cutter कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति</p> <hr/> <p>Right Answer is : D. You have Marked : D. Right Answer</p>	
23	2783	<p>Q) What is the colour of the aluminium metal? एल्यूमीनियम धातु का रंग क्या है?</p> <hr/> <p>a) Yellow पीला b) Reddish लाल सा c) Whitish grey वाइटिश ग्रे d) Silvery white सिल्वेरी वाइट</p> <hr/> <p>Right Answer is : C. You have Marked : D. Wrong Answer</p>	






24	2784	<p>Q) What is the type of gear? गियर का प्रकार क्या है?</p>  <p>a) Spur gear स्पर गियर b) Mitre gear मीटर गियर c) Hypoid gear हाइपोड गियर d) Herringbone gear हेरिंगबोन गियर</p> <p>Right Answer is : B. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	⊗
25	2785	<p>Q) Which ore is extraction of aluminium? कौन सा अयस्क एल्यूमीनियम का निष्कर्षण है?</p> <p>a) Pyrites पाइराइट b) Galena गेलेना c) Blends ब्लैंड d) Bauxite बॉक्साइट</p> <p>Right Answer is : D . You have Marked : D. Wrong Answer</p>	⊗
26	2786	<p>Q) Which ore produces lead metal? किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है?</p> <p>a) Pyrites पाइराइट्स b) Bauxite बॉक्साइट c) Malchite मैलकाइट d) Galena गेलेना</p> <p>Right Answer is : D . You have Marked : D. Wrong Answer</p>	⊗
27	2787	<p>Q) Which is the imaginary circle on two matting gears? दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है?</p> <p>a) Root circle रूट सर्कल b) Pitch circle पिच सर्कल c) Base circle बेस सर्कल d) Addendum circle अड्डेंडम चक्र</p> <p>Right Answer is : B. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	⊗
28	2788	<p>Q) Which energy is converted in hydraulic pump? हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है?</p> <p>a) Thermal energy to hydraulic energy थर्मल ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में b) Electrical energy to hydraulic energy विद्युत ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में c) Pneumatic energy to hydraulic energy वायवीय ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में d) Mechanical energy to hydraulic energy यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में</p> <p>Right Answer is : D. You have Marked : D. Right Answer</p>	☑

29	2789	<p>Q) Which formula is used to calculate the pressure? प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है?</p> <hr/> <p>a) Force + Area बल + क्षेत्रफल b) Force / Area बल / क्षेत्रफल c) Force - Area बल - क्षेत्रफल d) Force x Area बल x क्षेत्रफल</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : D. Wrong Answer</p>	⊗
30	2790	<p>Q) What is the unit of pressure in SI unit? SI इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है?</p> <hr/> <p>a) Kilogram किलोग्राम b) Pascal पास्कल c) Pound पाउंड d) Meter मीटर</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	⊗
31	2791	<p>Q) Which law states that the pressure exerted on a liquid is transmitted equally in all the directions? किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है?</p> <hr/> <p>a) Boyles Law बायल का नियम b) Pascals Law पास्कल का नियम c) Hooks Law हुक का नियम d) Archimedes Principle आर्किमिडीज सिद्धांत</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : B. Right Answer</p>	⊙
32	2792	<p>Q) Which valve is an orifice or restrictor in hydraulic system? हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरफिस या रेस्ट्रिक्टर है?</p> <hr/> <p>a) Flow control valve फ्लो कंट्रोल वाल्व b) Check valve चेक वाल्व c) Direction control valve डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व d) Pressure valve प्रेशर वाल्व</p> <hr/> <p>Right Answer is : A. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	⊗
33	2793	<p>Q) What is the name of symbol marked as X? X के रूप में चिह्नित प्रतीक को नाम दें।</p> <hr/>  <hr/> <p>a) Daily रोज b) Weekly साप्ताहिक c) Monthly महीने d) Scheduled for frequency other than above आवृत्ति के लिए निर्धारित</p> <hr/> <p>Right Answer is : D. You have Marked : D. Right Answer</p>	⊙

34	2794	<p>Q) Which coolant oil is emulsified with water? कौन सा शीतलक तेल, पानी के साथ इमल्सिफाईड होता है?</p> <hr/> <p>a) Soluble oil सोल्युबल तेल b) Kerosene मिटटी तेल c) Mineral oil खनिज तेल d) Lard oil लार्ड आयल</p> <hr/> <p>Right Answer is : A. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	⊗
35	2795	<p>Q) Which property states that the temperature of the lubricant is able to flow freely while poured? कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है?</p> <hr/> <p>a) Oiliness तेलीयता b) Fire point अग्नि बिंदु c) Pour point पोर प्वाइंट d) Flash point फ्लैश प्वाइंट</p> <hr/> <p>Right Answer is : C. You have Marked : A. Wrong Answer</p>	⊗
36	2796	<p>Q) What is the main advantage of toothed chain drive? दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है?</p> <hr/> <p>a) Increase the tension chain drive टेंशन चेन ड्राइव का बढ़ना b) Provide noiseless and uniform drive शांत और यूनiform ड्राइव प्रदान करें c) Efficient between shafts in short distance कम दूरी में शाफ्ट के बीच इफिशियन्ट d) Provide high speed low torque transmission उच्च गति कम टॉर्क संचरण प्रदान करें</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : A. Wrong Answer</p>	⊗
37	2797	<p>Q) Which crane is used in remote place and offsite? दूरस्थ स्थान और ऑफसाइट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है?</p> <hr/> <p>a) Gantry crane गैन्ट्री क्रेन b) Pillar jib crane पिलर जिब क्रेन c) Travelling wall crane ट्रैवलिंग वॉल क्रेन d) Truck mounted crane ट्रक माउंटेड क्रेन</p> <hr/> <p>Right Answer is : D. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	⊗
38	2798	<p>Q) What is the purpose of hydraulic floor cranes? हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है?</p> <hr/> <p>a) To lift the loads भार उठाने के लिए b) To shift the loads भार को स्थानांतरिक करने के लिए c) Used on lever to lift or lead heavy loads भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए d) To raise and lower the load लोड को बढ़ाने और कम करने के लिए</p> <hr/> <p>Right Answer is : C. You have Marked : C. Right Answer</p>	⊙

<p>39</p> <p>2799</p>	<p>Q) What is the name of crane? क्रेन का नाम क्या है?</p> <hr/>  <p>a) Gantry crane गैन्ट्री क्रेन b) Pillar jib crane पिलर जिब क्रेन c) Travelling wall crane ट्रैवेलिंग वॉल क्रेन d) Truck mounted crane ट्रक माउंटेड क्रेन</p> <hr/> <p>Right Answer is : D . You have Marked : C. Wrong Answer</p>	<p>⊗</p>
<p>40</p> <p>2800</p>	<p>Q) How jib crane is used to move the load? भार को स्थानांतरित करने के लिए जिब क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है?</p> <hr/> <p>a) Radially त्रिज्यात b) Vertically लंबवत c) Horizontally क्षैतिज d) Inclined angle इन्क्लाइन्ड एंगल</p> <hr/> <p>Right Answer is : C . You have Marked : A. Wrong Answer</p>	<p>⊗</p>
<p>41</p> <p>2801</p>	<p>Q) Which is the law of friction? कौन सा घर्षण का नियम है?</p> <hr/> <p>a) Friction force is independent over the area and shape of contacting surfaces घर्षण बल क्षेत्र और से संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है b) Frictional force is inversely proportional to the normal reaction घर्षण बल विपरीत रूप से सामान्य प्रतिक्रिया के लिए आनुपातिक है c) Frictional force acts in the same direction of motion गति की एक ही दिशा में घर्षण बल में कार्य करता है d) Frictional force is not a dependent on nature of contacting surface घर्षण बल से संपर्क सतह की प्रकृति पर एक निर्भर नहीं है</p> <hr/> <p>Right Answer is : A . You have Marked : B. Wrong Answer</p>	<p>⊗</p>
<p>42</p> <p>2802</p>	<p>Q) Which depends on the frictional force? घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है?</p> <hr/> <p>a) Type of metals धातुओं के प्रकार b) Contact surfaces संपर्क सर्फेस c) Quantity of the contacting metals से संपर्क धातुओं की मात्रा d) Quality of metals धातुओं की गुणवत्ता</p> <hr/> <p>Right Answer is : B . You have Marked : B. Right Answer</p>	<p>✔</p>
<p>43</p> <p>2803</p>	<p>Q) What causes the efficiency of a machine by maintaining the lubrication? स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है?</p> <hr/> <p>a) Increases बढ़ती है b) Decreases कम हो जाती है c) Remains same एक ही रहता है d) Does not affect प्रभावित नहीं करता है</p> <hr/> <p>Right Answer is : A . You have Marked : B. Wrong Answer</p>	<p>⊗</p>

44	2804	<p>Q) What is weight of an object could be moved by a force of 30 Kg if co-efficient of friction is 0.0125? यदि घर्षण गुणांक $m = 0.0125$ है तो किसी वस्तु का भार 30 Kg के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है?</p> <p>a) 80 Kg b) 2430 Kg c) 72000 Kg d) 2400 Kg</p> <p>Right Answer is : D. You have Marked : D. Right Answer</p>	✔
45	2805	<p>Q) Which state of equilibriums example is a cone resting on its tip? संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है?</p> <p>a) Stable स्थिर b) Neutral तटस्थ c) Unstable अस्थिर d) Horizontal क्षैतिज</p> <p>Right Answer is : C. You have Marked : D. Wrong Answer</p>	✘
46	2806	<p>Q) What is the name called biggest chord of the circle? चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है?</p> <p>a) Arc आर्क b) Diameter व्यास c) Radius रेडियस d) Diagonal विकर्ण</p> <p>Right Answer is : B. You have Marked : B. Right Answer</p>	✔
47	2807	<p>Q) What is the diameter of the circle, if the circumference is 31.4 cm? यदि परिधि 31.4cm है तो वृत्त का व्यास क्या है?</p> <p>a) 5 cm b) 10 cm c) 8 cm d) 8.5 cm</p> <p>Right Answer is : B. You have Marked : D. Wrong Answer</p>	✘
48	2808	<p>Q) What is the multiplication value of $5a^2b \times 8a^5b^3$? $5a^2b \times 8a^5b^3$ का गुणन मान क्या है?</p> <p>a) $40a^7b^4$ b) $40a^3b^2$ c) $40a^4b^7$ d) $40a^2b^3$</p> <p>Right Answer is : A. You have Marked : A. Right Answer</p>	✔

49	2809	<p>Q) What is the value of any number raised to the power of 0? 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या है?</p> <hr/> <p>a) 0 b) 1 c) -1 d) ∞</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : A. Wrong Answer</p>	
50	2810	<p>Q) Which is expanded form of $a^3 - b^3$? $a^3 - b^3$ का मान क्या है?</p> <hr/> <p>a) $(a+b)(a^2 - b^2 - ab)$ b) $(a-b)(a^2 + b^2 + ab)$ c) $(a-b)(a^2 - b^2 - ab)$ d) $(a-b)(a^2 - b^2 + ab)$</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	
51	2811	<p>Q) Which is thermo plastic material? इनमें से कौन-सा थर्मो प्लास्टिक सामग्री है?</p> <hr/> <p>a) Butyl rubber ब्यूटाइल रबर b) Nylon नायलॉन c) Neoprene नियोप्रिन d) Vinyl polymers विनाइल पॉलीमर</p> <hr/> <p>Right Answer is : D. You have Marked : D. Right Answer</p>	
52	2812	<p>Q) Which is elastic material? इनमें से कौन-सा लोचदार सामग्री है?</p> <hr/> <p>a) Nylon नायलॉन b) Polystyrenes पॉलीस्टायरन्स c) Celluloid सिलोलाईड d) Polycarbonates पॉलीकार्बोनेट्स</p> <hr/> <p>Right Answer is : A. You have Marked : A. Right Answer</p>	
53	2813	<p>Q) What is colour of a metal piece when heated to 250°C while doing the tempering process? टैम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250°C पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा?</p> <hr/> <p>a) Blue नीला b) Brown भूरा c) Purple बैंगनी d) Pale पीला</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : B. Right Answer</p>	

54	2814	<p>Q) What is the process of heat treatment? ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है?</p> <hr/> <p>a) The process of heating and cooling to change the structure and properties संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया b) The process of heating to change the dimensions आयामों को बदलने के लिए हीटिंग की प्रक्रिया c) The process of cooling to measure the dimensions आयामों को मापने के लिए कूलिंग की प्रक्रिया d) The process of heating and bending as per our requirement हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हीटिंग और झुकने की प्रक्रिया</p> <hr/> <p>Right Answer is : A. You have Marked : A. Right Answer</p>	✓
55	2815	<p>Q) What is the expanded form of S.P? एस.पी. (S.P) का विस्तृत रूप क्या है?</p> <hr/> <p>a) Selected Price चयनित मूल्य b) Special Price विशेष मूल्य c) Selling Price विक्रय मूल्य d) Super Price सुपर मूल्य</p> <hr/> <p>Right Answer is : C. You have Marked : C. Right Answer</p>	✓
56	2816	<p>Q) What is denoted as I? आई (I) किसको निरूपित करता है?</p> <hr/> <p>a) Principal प्रिंसिपल b) Interest इंटररेस्ट c) Rate रेट d) Year ईयर</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : B. Right Answer</p>	✓
57	2817	<p>Q) What is the interest earned, if the principal is Rs.12000/- becomes to an amount of Rs.15600/-? साधारण ब्याज क्या होगा, यदि Rs.12000/- की धनराशि, Rs.15600/- बन जाती है?</p> <hr/> <p>a) Rs.2,600 b) Rs.3,600 c) Rs.4,600 d) Rs.5,600</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : B. Right Answer</p>	✓
58	2818	<p>Q) What is a hand book? पुस्तिका क्या है?</p> <hr/> <p>a) Model book of various works विभिन्न कार्य का मॉडल बुक b) Type of reference work or other collection of instruction संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अन्य संग्रह c) Design book of latest works नवीनतम कार्य का डिजाइन बुक d) Dictionary of materials सामग्री का शब्दकोश</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	✗

59	2819	<p>Q) Which of the impurity in cast iron makes it hard and brittle? कच्चे लोहे में कौन-सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है?</p> <hr/> <p>a) Silicon सिलिकॉन b) Sulphur सल्फर c) Manganese मैग्नीज d) Phosphorus फॉस्फोरस</p> <hr/> <p>Right Answer is : B. You have Marked : A. Wrong Answer</p>	⊗
60	2820	<p>Q) What is the name of a booklet the rates of various terms are indicated? पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है?</p> <hr/> <p>a) Price bank मूल्य बैंक b) Price bunch मूल्य गुच्छा c) Price tag मूल्य सूचनांक d) Price catalogue मूल्य सूची</p> <hr/> <p>Right Answer is : D. You have Marked : C. Wrong Answer</p>	⊗

Result Generated Date : 03/10/2021. Powered by NIMI

